

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने 2020 के लिए मज़बूत AAA क्रेडिट रेटिंग को कायम रखा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (16 अक्टूबर, 2020) – कल, [एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स \(एस एंड पी\) ने 2020 के लिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की ट्रिपल 'A' रेटिंग की पुष्टि की \(S&P Global Ratings \(S&P\) affirmed the City of Brampton's Triple 'A' rating for 2020\)](#), यह वह उच्च क्रेडिट रेटिंग है, जो म्युनिसिपैलिटी को स्थिर दृष्टिकोण से मिल सकती है। एस एंड पी (S&P) के मुताबिक, रेटिंग सिटी की ठोस अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन संबंधी पद्धतियों को दर्शाती है, जो कोविड-19 (COVID-19) महामारी से इसकी बहाली में मदद करेंगी।

सुर्खियां

एस एंड पी, सिटी की मज़बूत क्रेडिट रेटिंग में योगदान देने वाले कारकों के बारे में बताती है, जिनमें शामिल हैं:

- सहयोगियों के मुकाबले कर्ज सेवा कवरेज को अधिक मज़बूत रखते हुए, असाधारण नकदी पोजीशन।
- राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कम उम्र वाली आबादी और स्वस्थ आबादी में वृद्धि के साथ, अच्छी सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक विशेषताएं, बड़े बाजारों से निकटता और प्रतिस्पर्धी टैक्स रेट्स, जो क्षेत्र में नए कारोबारियों और रोजगार अवसरों को आकर्षित करते हैं।
- उपयुक्त जानकारी तक पहुंच में आसान प्रकटन और विस्तृत संचालन व पूंजी बजट।

स्थिर दृष्टिकोण रेटिंग, एस एंड पी की उस अपेक्षा को दर्शाती है कि जैसे ही कोविड-19 संबंधी पाबंदियां दूर होंगी, अगले दो वर्षों में ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था की गति तेज़ होगी, जिससे सिटी के मज़बूत बजट संबंधी प्रदर्शन और अच्छी नकदी पोजीशन में मदद मिलेगी।

हवाले

“लगभग 20 वर्षों में सबसे पहले, हमने आरक्षित संपत्तियों में रिकॉर्ड योगदान देते हुए टैक्स फ्रीज़ प्रदान किया और लगातार दो वर्षों तक इसे कायम रखा। हमने पैसे के मूल्य संबंधी ऑडिट भी किया, जिसमें \$7.2 मिलियन की संभावी बचत की पहचान की गई और एक पूंजी प्रोजेक्ट समीक्षा भी की, जिसमें वापिस किए जाने और नई पहलकदमियों के लिए इस्तेमाल करने हेतु फंडिंग में \$9.2 मिलियन की पहचान की गई और आगे की समीक्षा के लिए \$10.5 मिलियन की पहचान की गई। हम ऐसे प्रयास करना जारी रखेंगे, जो ब्रैम्पटन को अच्छी तरह से संचालित शहर बनाने में और महामारी से हमारी बहाली को संचालित करने में मदद करने वाले हों।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“महामारी के आने से पहले हमारे किए गए प्रयासों ने सिटी की आरक्षित संपत्तियों को मज़बूत किया और आज हमारे सामने आ रही बेहद मुश्किल चुनौतियों की स्थिति में भी, हमारी वित्तीय स्थिति को मज़बूत बनाने में मदद की है। कैंनेडा में सबसे तेज़ी से विकसित होने

वाले शहरों में से एक के तौर पर, इनोवेशन कोरिडोर पर स्थिति, ब्रैम्पटन एक मुख्य वृद्धि केंद्र बना हुआ है, जहां प्रतिभा और विविधता विकसित होती है।”

– हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमने अपने संचालनों को आधुनिक बनाते हुए, सावधानीपूर्वक लागतों में संतुलन कायम करके सिटी को प्रभावी ढंग से संचालित रखने का प्रयास किया है। ब्रैम्पटन को आगे बढ़ाना जारी रखने के लिए और हमारे निवासियों, कारोबारियों और निवेशकों को बेहतर मदद देने के लिए, विशेषकर जब हम कोविड-19 के प्रभावों से बाहर निकल रहे हैं – हम सेवा और आर्थिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

– डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca